

# VacSwim अवकाशकालीन तैराकी कार्यक्रम

## अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

### नामांकन कौन करवा सकता है?

5 से 17 साल की आयु वाले बच्चे

### मैं अपनी संतान का नामांकन कैसे करवाऊँ?

नामांकन करवाने का सबसे आसान तरीका ऑनलाइन [education.wa.edu.au/vacswim](http://education.wa.edu.au/vacswim) वेबसाइट है। आप हमारी वेबसाइट से नामांकन फॉर्म डाउनलोड करके पूरा कर सकते/सकती हैं और फिर इसे नामांकन की अंतिम तिथि तक हमारे कार्यालय में पहुंचने के लिए इस पते पर डाक से भेज सकते/सकती हैं:

VacSwim  
Department of Education  
Statewide Services Centre  
33 Giles Avenue  
Padbury WA 6025

निम्नलिखित भाषाओं में अनुवादित नामांकन फॉर्म (वेबसाइट पर) उपलब्ध हैं: अरबी, गुजराती, हिंदी, इंडोनेशियाई, जापानी, मलयालम, फारसी, पंजाबी, सरलीकृत चीनी, स्पैनिश, तागालोग, तमिल, थाई, पारंपरिक चीनी, उर्दू और वियतनामी।

### इसका क्या शुल्क है?

कार्यक्रम	सिंगल	सिंगल रियायत	फैमिली*	फैमिली* छूट
जनवरी कार्यक्रम 1	\$31	\$20	\$83	\$55
जनवरी कार्यक्रम 2	\$31	\$20	\$83	\$55
जनवरी 5 दिवसीय	\$16	\$11	\$42	\$28
ग्रामीण क्षेत्रों में जल्दी	\$31	\$20	\$83	\$55

\*फैमिली नामांकन में एक ही पते से तीन या इससे अधिक बच्चे शामिल हैं। शुल्कों में पूल में प्रवेश शामिल नहीं है।

## छूट के लिए कौन पात्र है?

कोई भी व्यक्ति, जिसके पास निम्नलिखित छूट कार्ड है:

- कम्पेनियन कार्ड
- कॉमनवेल्थ सीनियर्स हेल्थ कार्ड
- डिपार्टमेंट ऑफ़ वेटेरन एफेयर्स (गोल्ड, व्हाइट, ऑरेंज)
- हेल्थ केयर कार्ड
- आउट ऑफ़ स्टेट सीनियर्स कार्ड
- पेंशनर कन्सेशन कार्ड
- स्टेट कन्सेशन कार्ड
- WA सीनियर्स कार्ड

## COVID-19 के लिए क्या निर्देश लागू हैं?

VacSwim की कक्षाएँ [डब्ल्यू के स्वास्थ्य विभाग](#) की वर्तमान सलाह के अनुरूप आयोजित की जाएंगी।

## मैं VacSwim के बारे में और अधिक जानकारी कैसे पता कर सकता/सकती हूँ?

वे: [education.wa.edu.au/swimming](http://education.wa.edu.au/swimming)

टे: 9402 6412

ई: [vacswim@education.wa.edu.au](mailto:vacswim@education.wa.edu.au)

## जनवरी के कार्यक्रम

**क्या मैं जनवरी के कार्यक्रमों में अभी अपनी संतान का नामांकन करवा सकता/सकती हूँ?**

हाँ, जनवरी कार्यक्रमों के नामांकन अब खुले हैं।

### जनवरी की कक्षाएँ कब हैं?

जनवरी कार्यक्रम 1: मंगलवार 3 जनवरी से शुक्रवार 13 जनवरी 2023 तक।  
5 दिवसीय जनवरी कार्यक्रम: सोमवार 9 जनवरी से शुक्रवार 13 जनवरी 2023 तक।  
जनवरी कार्यक्रम 2: सोमवार 16 जनवरी से बुधवार 25 जनवरी 2023 तक।

### कक्षाएँ कितनी अवधि की होंगी?

जनवरी कार्यक्रम 1: 9 दिवसीय कार्यक्रम में 45 मिनट की कक्षाएँ। 5 दिवसीय  
जनवरी कार्यक्रम: 5 दिवसीय कार्यक्रम में 35 मिनट की कक्षाएँ। जनवरी कार्यक्रम  
1: 8 दिवसीय कार्यक्रम में 45 मिनट की कक्षाएँ।

### जनवरी महीने के नामांकन कब बंद होंगे?

जनवरी कार्यक्रम 1: रविवार 6 नवंबर 2022  
5 दिवसीय जनवरी कार्यक्रम: रविवार 6 नवम्बर 2022  
जनवरी कार्यक्रम 2: रविवार 13 नवम्बर 2022

## ग्रामीण क्षेत्रों में जल्दी शुरू

### कक्षाएँ कब हैं?

शुक्रवार 16 दिसंबर से शुक्रवार 23 दिसंबर 2022\*  
\* इसमें शनिवार और रविवार की कक्षाएँ शामिल हैं

### कक्षाएँ कितनी अवधि की होंगी?

8 दिवसीय कार्यक्रम में 45 मिनट की कक्षाएँ।

### नामांकन कब बंद होंगे?

रविवार 30 अक्टूबर 2022.